



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

अगस्त 15, 2025

संख्या 33

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	अगस्त 09	अगस्त 01	अगस्त 08	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3491361	3753886	3779127	25240	287765
1.1 संचलन में नोट	3491350	3753870	3779110	25240	287760
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	12	17	17	0	5
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	101	1	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	971052	1001761	926802	-74960	-44250
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8160	8011	8472	461	311
2.6 अन्य बैंक	54603	52816	53047	232	-1555
2.7 अन्य	655068	734657	759652	24995	104584
3 अन्य देयताएं	1821931	2257657	2347314	89656	525383
कुल देयताएं / आस्तियां	7002318	7808931	7874556	65625	872238
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4973045	5124222	5150654	26433	177609
2 सोना	497338	735336	755391	20054	258052
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1318325	1784204	1779572	-4632	461247
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	32993	32232	42792	10560	9798
4.3 नाबाई	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	7825	1100	4352	3252	-3473
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	159819	109785	119915	10129	-39905
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	10909	19988	19817	-171	8908

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	अगस्त 08, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6081131	693618	50714	4747	368990	25292	455201	23499
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5119915	583979	28420	2372	269081	16421	183721	-3981
1.2 स्वर्ण	755391	86160	20054	2162	87228	7984	258052	26921
1.3 विशेष आहरण अधिकार	164304	18741	1723	169	9015	571	10821	459
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	41521	4739	516	45	3666	315	2606	101

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

अगस्त 08, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 956146 करोड़	2025													
	जुलाई 26	जुलाई 27	जुलाई 28	जुलाई 29	जुलाई 30	जुलाई 31	अगस्त 01	अगस्त 02	अगस्त 03	अगस्त 04	अगस्त 05	अगस्त 06	अगस्त 07	अगस्त 08
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	966219	964293	973948	961562	972817	996170	1008861	970942	973069	924841	934582	923962	919730	934066
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	101.1	100.9	101.9	100.6	101.7	104.2	105.5	101.5	101.8	96.7	97.7	96.6	96.2	97.7

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	जुलाई 25, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	342422	1021	-13084	33008	35031	61036
1.2 बैंकों से उधार	105206	9636	-43677	-6770	-54518	-33546
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	22321	-204	3056	-7595	9431	-53186
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23349278	23573	718342	768677	2025805	2155710
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	3.5	3.4	10.6	10.2
2.1.1 मांग	2876367	74332	367	178318	185438	432146
2.1.2 मीयादी	20472912	-50760	717975	590359	1840367	1723564
2.2 उधारियां	837820	-17466	157247	-77429	150848	-97370
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	990022	18099	-38460	-71610	78194	91054
3 रिज़र्व बैंक से उधार	1906	683	-215555	-309560	-37867	-5255
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1000708	-14033	54508	36419	79220	-74716
4.1 उपलब्ध नकदी	82478	-2063	9917	604	2427	-16872
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	918229	-11970	44590	35815	76794	-57844
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	264216	6899	-5201	48414	1573	71089
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	17836	284	1575	-8002	-8978	3906
5.3 बैंकों को अग्रिम	27214	-1919	-6756	-12290	-1124	-14399
5.4 अन्य आस्तियां	59896	-9349	-980	-7457	21724	-54548
6 निवेश	6726836	10588	207209	28908	474408	413069
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.2	3.4	0.4	8.1	6.5
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6726292	10598	207047	28994	474050	413635
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	544	-10	162	-86	357	-567
7 बैंक ऋण	18501872	31979	381771	257900	2026811	1687937
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.2	2.3	1.4	13.7	10.0
7 क.1 खाद्य ऋण	56674	-2318	5109	20143	7354	28484
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18445197	34298	376662	237756	2019458	1659453
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18163660	33783	366130	253809	1972449	1663228
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	77094	-2034	7171	2131	24077	9456
7 ख.3 भुनाए गए	225406	437	9715	4347	34966	18334
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	13316	-417	-560	-1806	-2676	-2536
7 ख.5 भुनाए गए	22395	210	-684	-582	-2004	-545

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	अगस्त 09	जुलाई 11	जुलाई 18	जुलाई 25	अगस्त 01	अगस्त 08
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.97	4.35	..	4.29	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	79.14	79.18	..	79.24	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	52.51	30.32	..	33.55	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.67	28.79	..	28.81	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	25.97	2.46	..	3.76	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.10/8.60	7.95/8.20	7.95/8.20	7.95/8.20	7.85/8.15	7.85/8.15
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.30	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिंत औसत)	6.49	5.32	5.35	5.55	5.41	5.40
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.64	5.39	5.39	5.39	5.40	5.46
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.73	5.54	5.54	5.53	5.52	5.55
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.73	5.58	5.59	5.57	5.57	5.58
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.93	6.33	6.31	6.43	6.41	6.45
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया®						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.90	85.85	86.20	86.52	87.35	87.62
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	91.67	100.29	100.16	101.73	99.88	102.05
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह	1.06	1.39	1.55	1.81	1.70	1.57
3-माह	1.31	1.52	1.60	1.76	1.68	1.70
6-माह	1.60	1.70	1.74	1.85	1.77	1.85

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मद्रुओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फारवर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	जुलाई 25	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28138916	-2340	0	733652	2.9	852327	3.1	2263558	9.7	2465403	9.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3707049	-21967	-0.6	15813	0.5	76297	2.1	210186	6.5	280960	8.2
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3018664	73837	2.5	525	0	178642	6.3	189335	7.9	431251	16.7
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21305560	-51720	-0.2	720626	3.8	603052	2.9	1843936	10.4	1736774	8.9
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	107642	-2490	-2.3	-3312	-3.5	-5664	-5.0	20101	28.3	16418	18.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8541325	-72880	-0.8	74642	1.0	30500	0.4	340767	4.6	863113	11.2
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1502150	-84177		-132303		-5955		-136175		441240	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7039175	11297	0.2	206944	3.2	36455	0.5	476942	7.8	421872	6.4
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	19301475	34980	0.2	374986	2.2	233347	1.2	2051932	13.2	1723658	9.8
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	12383	4419		-3471		-25862		5791		1448	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	19289092	30562	0.2	378457	2.2	259209	1.4	2046141	13.2	1722209	9.8
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6467260	60973	1.0	233250	4.2	318732	5.2	757966	15.0	666506	11.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	37652	0	0	874	2.6	1020	2.8	3158	10.1	3346	9.8
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	6477524	6208796	25415	0.4	-49900	-0.9	-268728	-4.1	890265	19.7	791219	14.6
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	2147427	2235868	59084	2.7	-71494	-4.0	88441	4.1	174488	11.3	517228	30.1

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अगस्त 08	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4915209	-48352	-1.0	20726	0.4	85967	1.8	271647	6.2	263037	5.7
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3817167	25240	0.7	14195	0.4	92719	2.5	191379	5.7	291511	8.3
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	988320	-74267	-7.0	8366	0.8	-3168	-0.3	59398	6.1	-45495	-4.4
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	109722	676	0.6	-1834	-1.9	-3585	-3.2	20870	29.1	17020	18.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1615236	-57253		-85461		107131		-144437		507485	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1572487	-67813		-111854		97027		-163174		497686	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-310704	52413		-98242		-191689		30517		-166316	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-323129	52324		-94275		-165868		24190		-168301	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5905718	46201	0.8	229739	4.4	354771	6.4	648304	13.4	434897	7.9
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	38057			874	2.6	1426	3.9	3158	10.1	3751	10.9
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	2147427	2333098	89713	4.0	26184	1.5	185672	8.6	265894	17.1	516780	28.5

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	ऋय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अगस्त 04, 2025	-	-	-	-	1232	239701	-	-	-	-238469
अगस्त 05, 2025	-	-	-	-	1087	236724	-	-	-	-235637
अगस्त 06, 2025	-	-	-	67755	1697	163097	-	-	-	-229155
अगस्त 07, 2025	-	-	-	49055	11066	86154	-1538	-	-	-125681
अगस्त 08, 2025	-	-	-	159089	4352	168392	1579	-	-	-321550
अगस्त 09, 2025	-	-	-	-	396	84124	-	-	-	-83728
अगस्त 10, 2025	-	-	-	-	359	86805	-	-	-	-86446

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	जून	जुलाई	जून	जुलाई	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	190.2	193.0	194.2	196.0	0.9	2.1	1.6
1.1 ग्रामीण	192.2	195.3	195.5	197.6	1.1	1.9	1.2
1.2 शहरी	187.8	190.3	192.6	194.2	0.8	2.3	2.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	141.4	142.7	145.0	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	154.0	155.3	153.8	154.4	0.4	-0.3	-0.6
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	192.3	197.8	185.8	188.0	1.2	1.3	-5.0
3.2 ईंधन और बिजली	146.9	148.2	143.0	144.6	1.1	-4.9	-2.4
3.3 विनिर्मित उत्पाद	142.0	141.7	144.8	144.6	-0.1	0.0	2.0

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जुलाई 25, 2025	508452	18551	5.59 - 6.63
अगस्त 08, 2025	511313	27982	5.64 - 6.24

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जुलाई 15, 2025	534009	79530	5.51 - 12.67
जुलाई 31, 2025	547229	73859	5.57 - 13.84

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	अगस्त 09, 2024	अगस्त 01, 2025	अगस्त 08, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	17702	28874	27991
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1124	9153	1487
3 त्रिपक्षीय रेपो	561910	802721	659645
4 बाजार रेपो	520926	738403	658871
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	3606	10605	12377

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

अगस्त 08, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	9085	17348	72088	203788
182-दिवसीय	58470	50380	17460	206360
364-दिवसीय	77391	78900	47306	352206
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (अगस्त 08, 2025 तक)	2024-25 (अगस्त 09, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (अगस्त 08, 2025 तक)	2024-25 (अगस्त 09, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	553000	505697	1400697	417914	310151	1039275
2. राज्य सरकारें	324368	237404	1073310	223817	158241	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल द्वारा प्रकाशित।